

आवश्यकता

पद: मुख्य प्रशिक्षक (Lead Trainer)

एक्शन रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर हेल्थ (अर्थ) जन स्वास्थ्य के मुद्दों पर वर्ष 1997 से कार्य कर रही एक गैर-सरकारी संस्था है। संस्था उदयपुर आधारित है तथा जनस्वास्थ्य के मुद्दों पर दक्षिणी राजस्थान में सक्रिय है। समय-समय पर राज्य के अन्य भागों में भी संस्था ने स्वास्थ्य के विषयों पर कार्य करती आई है। कोरोना वैश्विक महामारी के समुदाय स्तर पर प्रबंधन के लिए संस्था दक्षिणी राजस्थान में परियोजना शुरू करने जा रही है, जिसके लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की आवश्यकता है।

संस्था मुख्य प्रशिक्षक पद के लिए इच्छुक व दक्ष उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करती है। वह संस्था की आगामी परियोजना के उद्देश्यों के अनुसार ब्लॉक की टीमों, स्वयंसेवकों व अन्य परियोजना स्टाफ के प्रशिक्षण व कार्य गुणवत्ता सुधार गतिविधियों का कार्य करेंगे। समय-समय पर परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण की जरूरतों को पहचानना, उन्हें सफलतापूर्वक आयोजित करना, प्रशिक्षण सम्बंधित सामग्री तैयार या संकलित करना और प्रशिक्षण का टीम के कार्यों पर प्रभाव का आंकलन प्रमुख कार्य होंगे। यह ब्लॉक प्रशिक्षक व अन्य परियोजना के स्टाफ के साथ मिलकर इन गतिविधियों को अंजाम देंगे।

मुख्य प्रशिक्षक को कार्यस्थल अर्थ प्रशिक्षण केंद्र, गाँव ईसवाल रहेगा तथा परियोजना क्षेत्र में कार्य करने के लिए यात्रा करना आवश्यक होगा। मुख्य प्रशिक्षक की जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए निम्न कौशल आवश्यक होंगे:

- समुदाय व स्थानीय मुद्दों की समझ
- विभिन्न प्रशिक्षण शैलियों का कार्यज्ञान
- विस्तृत लेखन की क्षमता
- लिखित व मौखिक संवाद में कुशलता
- हिंदी व मेवाड़ी भाषा में दक्ष
- प्रशिक्षण कार्यों को पूर्ण करने हेतु विशेषज्ञों व संगठनों के साथ समन्वय व संवाद स्थापित करना
- कोरोना वैश्विक महामारी व प्राथमिक स्वास्थ्य मुद्दों में कार्य रुचि
- नवीनतम ज्ञान व जानकारी को प्रशिक्षण में समय-समय पर शामिल करना
- टीम के साथ समन्वय स्थापित लक्षित कार्यों को पूर्ण करना
- समयबद्ध तरीके से व प्राथमिकता अनुसार गतिविधियां लागू करवाना
- कंप्यूटर दक्षता: डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, इंटरनेट व ईमेल के प्रयोग में दक्ष

आवश्यक शैक्षणिक योग्यता व अनुभव: परास्नातक व वयस्कों के प्रशिक्षण कार्यों में कम से कम से 2 वर्ष का अनुभव या स्नातक व वयस्कों के प्रशिक्षण कार्यों में कम से कम 4 वर्षों का अनुभव

आवेदन की अंतिम तिथि: 30 अगस्त 2021

भरा हुआ आवेदन पत्र ईमेल द्वारा भेजें: hr@arth.in